

## आतंकवाद आपदा प्रतिक्रिया

### पृष्ठभूमि:

आतंकवादी प्रत्यक्ष लक्ष्यों की तलाश में रहते हैं, जहाँ वे हमले से पहले या बाद में पहचाने न जा सके जैसे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, बड़े शहर, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम, रिसॉर्ट्स, और हाई प्रोफाइल स्थान। आतंकवाद धमकी देने, बलात्कार या फिरौती के प्रयोजनों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के आपराधिक कानूनों के उल्लंघन करते हुए व्यक्तियों या संपत्ति के खिलाफ बल या हिंसा का प्रयोग करना है।

आतंकवाद के कृत्यों के लिए उच्च जोखिम वाले लक्ष्यों में शामिल हैं सैन्य और असैनिक सरकारी सुविधाएँ, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, बड़े शहर, और हाई प्रोफाइल स्थान। आतंकवादी बड़े सार्वजनिक समारोहों, जल और खाद्य आपूर्तियों, जनोपयोगी सेवाओं और कॉर्पोरेट केंद्रों पर भी निशाना साध सकते हैं। इसके अलावा, आतंकवादी मेल के माध्यम से विस्फोटकों या रासायनिक और जैविक एजेंटों को भेज कर दहशत फैलाने में भी सक्षम होते हैं।

आतंकवादी अक्सर निम्न के लिए धमकी का प्रयोग करते हैं:	आतंकवाद के कृत्यों में शामिल हैं:
<ul style="list-style-type: none"><li>जनता के बीच भय पैदा करना।</li><li>नागरिकों को समझाने की कोशिश करना कि उनकी सरकार आतंकवाद को रोकने में अशक्त है।</li><li>अपने प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रचार पाना।</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>आतंकवाद के खतरे; हत्या; अपहरण; हाइजैक करना; बम से डराना और बम विस्फोट; साइबर हमले (कंप्यूटर आधारित); और रासायनिक, जैविक, परमाणु और रेडियोधर्मी हथियारों का उपयोग करना।</li></ul>

किसी आतंकवादी घटना के नज़दीकी क्षेत्र में, आपको निर्देश के लिए पुलिस, दमकल और अन्य अधिकारियों पर भरोसा करना होगा। तथापि, आप संकट की अन्य घटनाओं के लिए आपकी तैयारी के अनुरूप ही तैयारी कर सकते हैं।

### जब आतंकवादी हमला हो:

- अपने परिवेश के बारे में सतर्क और जागरूक रहें।
- विशिष्ट व्यवहार के बारे में सूचित करें।
- यात्रा करते समय सावधानी बरतें।
  - अजनबियों से पैकेज स्वीकार न करें।



कोलम्बिया गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट  
निर्माता:  
होमलैंड सेक्यूरिटी एंड एमर्जेंसी मैनेजमेंट एजेंसी (HSEMA)



पिछला संशोधन: नवंबर, 2011

## आतंकवाद आपदा प्रतिक्रिया

- सामान बिना निगरानी के न छोड़ें।
- असामान्य व्यवहार, संदिग्ध या बिना निगरानी वाले पैकेज और अजीब उपकरणों के बारे में तुरंत पुलिस या सुरक्षाकर्मियों को सूचित करें।
- जिन इमारतों में आप अक्सर जाते हैं वहाँ के आपातकालीन निकास के बारे में जानकारी हासिल करें।
- आपातकालीन स्थिति में निकास मार्गों की योजना तैयार करें।
- बिजली, टेलीफोन, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल पंप, नकदी रजिस्टर, एटीएम और इंटरनेट लेन-देन - जिन पर आप सामान्यतः निर्भर करते हैं, ऐसी सेवाओं के बिना गुज़ारा करने के लिए तैयार रहें।
- यह सुनिश्चित करने के लिए भवन के मालिकों के साथ काम करें कि भवन की प्रत्येक मंज़िल पर निम्न वस्तुएँ मौजूद हैं:
  - पोर्टेबल, बैटरी चालित रेडियो और अतिरिक्त बैटरियाँ
  - कई टॉर्च और अतिरिक्त बैटरियाँ
  - प्राथमिक चिकित्सा किट और मैनुअल
  - हार्डहैट और धूलके मास्क
  - अग्निशामक
  - खतरनाक क्षेत्रों की रस्साबंदी के लिए फ्लोरोसेंट टेप



कोलम्बिया गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट  
निर्माता:  
होमलैंड सेक्यूरिटी एंड एमर्जेंसी मैनेजमेंट एजेंसी (HSEMA)

पिछला संशोधन: नवंबर, 2011

